

प्रश्न –पत्र का प्रारूप

कक्षा – 12

विषय— भौतिक विज्ञान

अवधि— 3.15 घंटे

पूर्णांक — 56

1. उद्देश्य हेतु अंकभार —

क्र.सं.	उद्देश्य	अंकभार	प्रतिशत
1.	ज्ञान	13	23.22
2.	अवबोध / अर्थग्रहण	20	35.71
3.	ज्ञानोपयोग / अभिव्यक्ति	13	23.22
4.	कौशल / मौलिकता	10	17.85
	योग	56	100 प्रतिशत

2. प्रश्नों के प्रकार एवं अंकभार —

क्र.सं.	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक प्रति प्रश्न	कुल अंक	प्रतिशत	सम्भावित समय
1.	वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पात्मक	0				
2.	अतिलघूतरात्मक	13	1	13	23.21	30
3.	लघूतरात्मक ।	11	2	22	39.29	62
4.	लघूतरात्मक ॥	03	3	09	16.17	28
5.	निबंधात्मक	03	4	12	21.43	50
	योग	30		56	100%	170 मिनट

विकल्प योजना : आन्तरिक

पुनरावलोकन — 10 मिनट

3. विषय वस्तु का अंकभार —

प्रश्न पत्र को पढ़ना — 15 मिनट

क्र.सं.	इकाई	अंकभार	प्रतिशत
1.	स्थिर वैद्युतिकी	7	12.5
2.	धारा वैद्युतिकी	5	8.93
3.	विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव	5	8.93
4.	चुम्बकत्व एवं चुम्बकीय पदार्थों के गुण	3	5.36
5.	विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा	7	12.5
6.	प्रकाशिकी	9	16.08
7.	प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे	4	7.14
8.	परमाणवीय एवं नाभिकीय भौतिकी	6	10.71
9.	इलेक्ट्रोनिकी	6	10.71
10.	विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी	4	7.14
	कुल अंक भार	56	100 प्रतिशत

विषय :- भौतिक विज्ञान

मॉडल प्रश्न पत्र ब्ल्यू प्रिन्ट कक्षा-12

पृष्ठीक :- 56

क्र.सं.	उद्देश्य इकाई / उप इकाई	ज्ञान				अवबोध				ज्ञानोपयोगी / अभिव्यक्ति				कोशल / भौतिकता		योग	
		अति लघु		निवं लघु		अति लघु		निवं लघु		ज्ञानोपयोगी / अभिव्यक्ति		अति लघु		निवं लघु			
		SA1	SA2	SA1	SA2	SA1	SA2	SA1	SA2	निवं	अति लघु	निवं	अति लघु	SA1	SA2		
1.	स्थिर वेद्यतिकी	1(1)		1 ^{+(1)*}				2 ^{+(−)}								1 ^{+(−)} 7(3)	
2.	धारा वेद्यतिकी					1(1)	2(1)			2(1)						5(3)	
3.	विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव	1(1)	1 ^{+(1)*}			1(1)		2 ^{+(−)}								5(3)	
4.	चुम्बकत्व एवं चुम्बकीय पदार्थों के गुण	1(1)								2(1)						3(2)	
5.	विद्युत चुम्बकीय प्रणा एवं प्रत्यावर्ती धारा			1 ^{+(1)*}				2 ^{+(−)}	1(1)	2(1)				1 ^{+(−)} 7(3)			
6.	प्रकाशिकी	1(1)		1 ^{+(1)*}		2(1)		2 ^{+(−)}		2(1)					1 ^{+(−)} 9(4)		
7.	प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे	1(1)	1 ⁺⁽¹⁾						1(1)					1 ^{+(−)}		4(3)	
8.	परमाणवीय एवं नाभिकीय भौतिकी			1 ^{+(1)*}	1 ⁺⁽¹⁾			2 ^{+(−)}			1(1)	1 ^{+(−)}				6(3)	
9.	इलेक्ट्रोनिकी							2(1)	1 ⁺⁽¹⁾			1(1)		2 ^{+(−)}		6(3)	
10.	विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी			1 ⁺⁽¹⁾			1 ^{+(−)}		1(1)		1(1)					4(3)	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.																	
	योग	5(5)	3(3)	2(2)	3(3)	2(2)	7(3)	5(1)	6(−)	3(3)	10(5)	3(3)	2(−)	2(−)	3(−)	56(30)	
	कुल योग			13(13)		20(6)			13(6)			10(3)				56(30)	

विकल्पों की योजना :-

नोट :- कोखक में बाहर की संख्या अंकों की तथा भीतर प्रश्नों के लिए है।

हस्ताक्षर

+ बहुउद्देशीय प्रश्नों के लिए

* अथवा प्रश्नों के लिए

उच्च माध्यमिक परीक्षा—2018

नमूने का प्रश्न—पत्र (**Model Question paper**)

कक्षा—12

विषय— भौतिक विज्ञान

अनुक्रमांक □□□□□□□□

अवधि— 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक 56 अंक

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

General Instructions to the Examinees :

- I. परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्नपत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
Candidate must write first his/her Roll No. on the question paper compulsorily.
- II. सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
All the questions are compulsory.
- III. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तरपुस्तिका में ही लिखें।
Write the answer to each question in the given answer book only.
- IV. जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड है, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
For questions having more than one part the answers to those parts are to be written together in continuity.
- V. प्रश्न पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तर में किसी प्रकार की त्रुटि / अंतर / विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें।
If there is any error/difference/contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid.

VI.	खण्ड	प्रश्न संख्या	अंक प्रत्येक प्रश्न
	Section	Q.No.	Marks per question
A		1-13	1
ब		14-24	2
स		25-27	3
द		28-30	4
A		1-13	1
B		14-24	2
C		25-27	3
D		28-30	4

VII. प्रश्न संख्या 22 तथा 27 से 30 में आन्तरिक विकल्प है।

There are interal choices in Q Nos. 21 and 27 to 30.

1. विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। 1
 Define electric dipole moment.
2. λ प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लम्बाई दुगुनी कर दें तो अब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? 1
 A wire of resistivity λ is stretched to double its length. What will be the new resistivity now?
3. चुम्बकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र लिखिए। 1
 Write dimensional formula of magnetic field.
4. आदर्श वॉल्टमीटर व आदर्श अमीटर के प्रतिरोध लिखिए। 1
 Write resistance of an ideal voltmeter and an ideal ammeter.
5. चुम्बकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। 1
 Write two properties of magnetic lines of force.
6. 1000 फेरों तथा 0.02 m^2 मी.² क्षेत्रफल की एक कुण्डली $5 \times 10^{-3} \text{ T}$ के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत रखी है। इस कुण्डली से गुजरने वाले फलस्क की गणना कीजिए। 1
 A coil having 1000 no. of turns and area 0.02 m^2 is placed perpendicular to magnetic field $5 \times 10^{-3} \text{ T}$. Calculate flux passing through this coil.
7. प्रकाशिक तन्तु का कार्य सिद्धान्त लिखिए। 1
 Write working principle of optical fibre.
8. प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। 1
 Define stopping potential in photo electric effect.
9. 10 किलोवोल्ट विभवान्तर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से सम्बद्ध दै-ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। 1
 Calculate De-Broglie wave length of an electron accelerated through a potential difference of 10 kV.
10. नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया का प्रतिकात्मक चित्र बनाइए। 1
 Draw symbolic diagram of nuclear fission chain reaction.
11. एक तीन निवेशी नॉर (NOR) द्वार का प्रतीक चित्र बनाइए। 1
 Draw symbolic diagram of a NOR gate having three inputs.
12. किसी ज्यावकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग के E सदिश का अधिकतम मान किसी क्षण

विशेष पर 300 V/m है, उस क्षण विशेष पर चुम्बकीय क्षेत्र सदिश का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

1

The maximum value of electric field of E vector of sinusoidal electromagnetic waves at particular instant is 300 V/m . Find the maximum value of magnetic field vector at that particular instant.

13. आयाम मॉड्यूलित तरंगों के अभिग्रहण हेतु अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाइए।

1

Draw block diagram of a receiver for receiving amplitude modulated waves.

14. 10 सेमी भुजा वाले एक समबाहू त्रिभुज के दो शीर्षों पर समान आवेश $10 \mu\text{C}$ हैं, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना कीजिए।

2

Two equal point charges of $10 \mu\text{C}$ are kept at two vertices of an equilateral triangle having side 10 cm. Calculate magnitude of electric field intensity at third vertex of triangle.

15. एक सेल जिसका वि.वा.ब. 2 वोल्ट है, विभवमापी के तार पर 500 सेमी की लम्बाई पर संतुलित होता है। यदि सेल को 4Ω के प्रतिरोध के साथ शट्ट कर दें तो संतुलित लम्बाई 100 सेमी घट जाती है। सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

2

A cell having emf 2 volt is balanced at length 500 cm of potentiometer wire. If cell is connected to a shunt of 4Ω resistor then balancing length reduced by 100 cm findout internal resistance of cell.

16. दो सेल जिनके वि.वा.बल कमशः E_1, E_2 तथा आन्तरिक प्रतिरोध कमशः r_1, r_2 हैं, समान्तर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन का तुल्य वि.वा.बल ज्ञात कीजिए।

2

Two cells having emf E_1, E_2 and internal resistance r_1, r_2 respectively are connected in parallel combination. Find out equivalent emf of this combination.

17. यदि प्राथमिक कुण्डली में बहने वाली 2 एम्पीयर की धारा को 5 मिली सेकण्ड में शून्य कर दें तो द्वितीय कुण्डली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित वि.वा.बल उत्पन्न होता है। इन कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

2

If 2 amp. current flows in primary coil reduced to zero in 5 mili sec. then 20 mili volt induced emf produces in secondary coil. Determine mutual inductance of these

coils.

18. किसी स्थान पर पृथकी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षेत्रिज घटक $0.5 \times 10^{-4} T$ हैं तथा नमन कोण 60° हैं तो उस स्थान पर पृथकी के कुल चुम्बकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।

2

The horizontal component of earth magnetism and dip angle at a place are $0.5 \times 10^{-4} T$ and 60° . Determine the total magnetic field of earth magnetism at that place.

19. गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में सम्बंध स्थापित कीजिए।

2

Establish a relation between radius of curvature and focal length for a spherical mirror.

20. काँच के उभयोतल लैंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्यायें क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी हैं। काँच का अपवर्तनांक 1.5 है तो लैंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

2

The Radius of curvature of two surfaces of a convex lens are 10 cm and 20 cm respectively. The refractive index of glass is 1.5 then determine focal length of the lens.

21. डेविसन एवं जर्मर प्रयोग का उद्देश्य लिखिये। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइये।

1+1= 2

Write object of Davisson and Germer's experiment. Draw a labelled diagram of its practical arrangement.

22. प्रति न्युक्लिओन बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसका द्रव्यमान संख्या के साथ आरेख बनाइये।

1+1= 2

अथवा

रेडियो एक्टिव क्षय का रदरफोर्ड-सोडी का नियम लिखिए तथा क्षय वक्र बनाइये।

1+1= 2

Define binding energy per nucleon and draw graph of it with mass number.

Or

Write the Rutherford-Soddy law of radio active decay and draw decay curve.

23. $p-n$ संधि के निर्माण के समय संधितल पर होने वाली किया को समझाइये। जब संधि उत्क्रम बायस पर हो तो अवक्षय परत पर होने वाले प्रभाव को समझाइये।

1+1= 2

Explain the action of junction layer at the time of formation of p-n junction.

Explain effect on depletion layer when junction is reverse based.

24. क्षोभ मण्डलीय संचरण में प्रयुक्त वाहक तरंगों की आवृत्ति की आवृत्ति परास लिखिए। इस संचरण में प्रसारण दूरी एवं प्रेषी ऐन्टीना की ऊँचाई में सम्बन्ध स्थापित कीजिए। $1+1= 2$

Write frequency range of career waves using in space wave propagation.

Establish relation between covering range and height of transmitting antenna.

25. हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल— का द्वितीय अभिग्रहित लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की n वीं कक्षा की त्रिज्या कक्ष संख्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। $1+2= 3$

Write second postulate of Bohr's model for hydrogen atom prove that the radius of n^{th} orbit is directly proportional to the square of orbit number n .

26. उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित किसी *PNP* ट्रांजिस्टर के अभिलाखणिक वक्त प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइये। निर्गत अभिलाखणिक वक्त बनाकर इनसे धारा लाभ ज्ञात करने की व्याख्या कीजिए। $1+1+1= 3$

Draw the circuit diagram of practical arrangement to study the characteristics of *PNP* transistor in common emitter configuration. Sketch typical output characteristics curves and explain the calculation of current gain from these curves.

27. बायो सावर्ट नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक वृताकार धारावाही कुण्डली के अक्ष पर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। $1+2= 3$

अथवा

- एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक टोरोइड की अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। $1+2= 3$

State Bio-Savart law. Using this law find an expression for the magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular coil.

Or

State Ampere's circuital law Using this law derive an expression for the

magnetic field along the axis of a toroid.

28. स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। एक समरूप आवेशित अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

जब बिन्दु (i) गोले के बाहर (ii) गोले के अंदर स्थित हैं। आवश्यक चित्र बनाइए।

1+2+1= 4

अथवा

संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। एक परावैद्युत पदार्थ से अंशतः भरे हुए समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। 1+2+1= 4

State Gauss's law in electrostatics. Derive an expression for electric field

intensity due to uniformly charged non conducting sphere. When point is situated (i) outside (ii) inside the sphere. Draw necessary diagram.

Or

Write the principle of a capacitor. Derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor, partially filled with dielectric. Draw necessary diagram.

29. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लैंज का नियम लिखिए। असमान चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत नियत वेग से गति कर रहे आयताकार लूप में प्रेरित वि.वा.बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। 1+2+1= 4

अथवा

प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए। एक श्रृंगी L-C-R परिपथ को $V = V_0 \sin wt$ प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। फेजर आरेख की सहायता से परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। 1+2+1= 4

State Lenz's law for electromagnetic induction. Derive an expression for induced emf in rectangular coil moving perpendicular to non uniform magnetic field with uniform velocity. Draw necessary diagram.

Or

Define impedance. A series L-C-R circuit is connected to an AC source

$V = V_0 \sin wt$. Derive an expression for impedance using phasor diagram.

30. प्रकाश के व्यतिकरण से क्या अभिप्राय हैं? यंग द्विलिस्ट प्रयोग में फिंज चौड़ाई का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। 1+2+1= 4

अथवा

विवर्तन से क्या अभिप्राय है? प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों के विवर्तन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। एकल स्लिट से फानहाफर विवर्तन में तीव्रता वितरण का आरेख खीचिए। इस

विवर्तन में उच्चतम तीव्रता की व्याख्या कीजिए। 1+1+1+1= 4

What is meant by interference of light? Derive an expression of fringe width in Young's double slit experiment. Draw necessary diagram.

Or

What is meant by diffraction? Differentiate between diffraction of light and sound waves. Draw the intensity distribution curve in frounhofer diffraction due to single slit. Explain to maximum intensity in this diffraction.

उत्तर तालिका

	खण्डवार अंक	अंक	पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या
1. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा		1	17
2. (अपरिवर्तित)		1	101
3. $(M^1 L^0 T^{-2} A^{-1})$		1	137
4. आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध = अनंत	$\frac{1}{2}$		161
आदर्श अमीटर का प्रतिरोध = शून्य	$\frac{1}{2}$	1	162
5. चुम्बकीय बल रेखाओं के कोई दो गुण	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	179
6. $\Phi = NBA$	$\frac{1}{2}$		
$\Phi = 0.1wb$	$\frac{1}{2}$	1	197
7. पूर्ण आन्तरिक परावर्तन		1	257
8. निरोधी विभव की परिभाषा		1	305
9. $\lambda_e = \frac{12.27}{\sqrt{V}} A^0$	$\frac{1}{2}$		
$\lambda_e = 0.1227 A^0$	$\frac{1}{2}$	1	314
10. नाभिकीय विस्तरण श्रृंखला अभिक्रिया का प्रतीकात्मक चित्र			
11.		1	408
12. $C = \frac{E_0}{B_0}, \quad B_0 = 10^{-6}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	429
13. ब्लॉक आरेख		1	426
14. $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$	$\frac{1}{2}$		
$ \vec{E} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \theta}$	$\frac{1}{2}$		
$E_1 = E_2, \quad \theta = 60^\circ$			
$ \vec{E} = \sqrt{3}E_1$	$\frac{1}{2}$		
$ \vec{E} = \frac{\sqrt{3} \times 9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10 \times 10^{-4}}$	$\frac{1}{2}$		

		खण्डवार अंक	अंक	पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या
	$ \vec{E} = 9\sqrt{3} \times 10^{-6} V/m$	$\frac{1}{2}$	2	162
15.	$r = \frac{l_1 - l_2}{l_2} \times R$	$\frac{1}{2}$		
	$l_1 = 500 \text{ cm}, l_2 = 500 - 100 = 400 \text{ cm}$	$\frac{1}{2}$		
	$r = 1\Omega$	1	2	126
16.	$V = E_1 - I_1 r_1, V = E_2 - I_2 r_2$ लिखने पर	$\frac{1}{2}$		
	$I = I_1 + I_2$ में I_1 व I_2 के मान रखने पर	$\frac{1}{2}$		
	$\mathcal{E}_{eq} = \frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}$	1	2	111
17.	$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dl_1}{dt}$	$\frac{1}{2}$		
	सूत्र में मान रखने पर	$\frac{1}{2}$		
	$M = 50 \times 10^{-6} H$ या $M = 50 \mu H$	1	2	211
18.	$B_H = B \cos \theta$	$\frac{1}{2}$		
	सूत्र में मान रखने पर	$\frac{1}{2}$		
	$B = 10^{-4} T$	1	2	185
19.	$F = \frac{R}{2}$ सम्बंध स्थापित करने पर		2	252
20.	$\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$	$\frac{1}{2}$		
	सूत्र में मान रखने पर	$\frac{1}{2}$		
	फोकस दूरी का मान ज्ञात करना	1	2	
21.	उद्देश्य	1		
	प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र व नामांकन	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2	314
22.	प्रति न्यूट्रिलिंग बंधन ऊर्जा की परिभाषा	1		
	इसका द्रव्यमान संख्या के साथ आरेख	1	2	343
	अथवा			
	रदरफोर्ड-सोडी नियम लिखना	1		
	क्षय वक्र बनाना	1	2	346

		खण्डवार अंक	अंक	पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या
23.	$P-N$ संधि निर्माण के समय संधि तल पर किया को समझाना उत्क्रम अभिनति में अवक्षय परत पर प्रभाव को समझाना	1		
24.	आवृति परास ($100MHz - 200MHz$) $d = \sqrt{2Rh}$ सम्बन्ध स्थापित करना	1	2	384
25.	बोर मॉडल हितीय अभिगृहित लिखना	1		
	$r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m t^2}$	$1\frac{1}{2}$		
	$r_n \propto n^2$	$\frac{1}{2}$	3	324
26.	परिपथ चित्र बनाना निर्गत अभिलाखणिक वक्र बनाना धारा लाभ ज्ञात करना	1		
27.	बायो सावर्ट नियम लिखना	1		399
	$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$	2	3	137
	अथवा एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखना	1		163
	टोरोइड की अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक			
	$B = \mu_0 n I$	2	3	169
28.	गाउस नियम लिखना	1		31
	गोले के बाहर $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$	1		39
	गोले के अंदर $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r$	1		40
	चित्र बनाना	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4	39, 40
	अथवा संधारित्र का सिद्धांत लिखना	1		75

		खण्डवार अंक	अंक	पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या
	$C = \frac{\epsilon_0 A}{\left(d - t + \frac{t}{\epsilon_r} \right)}$ धारिता का सूत्र	2 1	4	78 78
29.	चित्र बनाना लेंज का लियम लिखना प्रेरित वि.वा.बल का व्यंजक $E = V(B_1 - B_2)I$ चित्र बनाना	1 2 1	4	
	अथवा प्रतिबाधा को परिभाषित करना प्रतिबाधा का व्यंजक $Z = R^2 + (X_L - X_C)^2$ परिपथ चित्र व फेजर आरेख बनाना	1 2 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4	200 204 230, 231
30.	प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा फिन्ज चौड़ाई का व्यंजक $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ चित्र बनाना	1 2 1	4	
	अथवा विवर्तन की परिभाषा ध्वनि व प्रकाश तरंगों के विवर्तन में अंतर तीव्रता वितरण का आरेख उच्चतम तीव्रता की व्याख्या	1 1 1 1		289 290 291 291